

गाजियाबाद में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी: 'मेड इन इजराइल' बताकर मोरंग-नमक से बनाई जा रही थी नकली खाद



उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में जिला प्रशासन ने नकली खाद बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। SDM प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रियों की जांच करने गए थे और उन्हें ये फैक्ट्री पकड़ में आ गई। यहां पर मोरंग, नमक और यूरिया को मिलाकर खाद बनाई जा रही थी, जो मार्केट में 'मेड इन इजराइल' बताकर बेची जा रही थी। फैक्ट्री में खाद के करीब एक हजार कट्टे मिले हैं। फैक्ट्री को सील करने की कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने कस्टडी में लिए दो कर्मचारी

लोनी SDM हिमांशु वर्मा ने बताया, बुधवार को वे अफजलपुर गांव में प्रदूषण फैलाने की शिकायत पर कुछ फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने के लिए गए थे। इस दौरान जब ये एक बड़ी चाहरदीवारी के अंदर जांच के लिए पहुंचे तो वहां पर खाद बनाई जा रही थी। कई कमरों में

खाद के कट्टे भरे हुए थे। इसमें कुछ असली और कुछ नकली थे। मौके पर दो कर्मचारी मौजूद मिले। उन्होंने पूछताछ में कुछ नहीं बताया। फैक्ट्री मालिक के बारे में भी जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। एसडीएम ने पुलिस बुलवाकर दोनों युवकों को हवाले कर दिया।

कृषि विभाग ने सैंपल जांच को भेजे

SDM हिमांशु वर्मा की सूचना पर कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर और जिला कृषि अधिकारी मौके पर पहुंच गए। कृषि विभाग ने खाद के नमूने ले लिए हैं, जिन्हें अब परीक्षण के लिए लैब भेजा जाएगा। SDM ने बताया कि मौके पर मोरंग मिला है। नमक जैसी रॉ मैटेरियल भी मिला है। असली यूरिया के कुछ कट्टे मिले हैं, जो संभवतः नकली में मिलाए जा रहे थे। कुछ कट्टों पर 'मेड इन इजराइल' छपा हुआ था। एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले में छानबीन की जा रही है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/ghaziabad/news/fake-fertilizer-was-being-made-from-morang-salt-by-saying-made-in-israel-130787246.html>